



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 03.06.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा दो वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.06.2021 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 186/21 धारा 452/323/324/504/325/307 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों 1. रामखिलावन पुत्र रामदेय 2. अरविन्द उर्फ बब्बू पुत्र सोहनलाल नि0गण खड़वा मीत मऊ थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 07 अभियुक्तों 1. सुनील सिंह पुत्र शिवपाल सिंह नि० सिंगावर थाना ईसानगर जनपद खीरी 2. प्रदीप पाण्डेय पुत्र मुकुटबिहारी नि० मूडी थाना ईसानगर जनपद खीरी 3. पप्पू पुत्र प्रेम सागर नि० मुरौवा थाना ईसानगर जनपद खीरी 4. दाऊद अहमद पुत्र अब्दुलमजीद नि० जगदीशपुर थाना ईसानगर जनपद खीरी 5. बीलकराम पुत्र पुत्तू नि० नगरिया थाना ईसानगर जनपद खीरी 6. पैरू पुत्र घूरेलाल नि० लालापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी 7. विष्णु पुत्र घन्नीराम नि० कटौली थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 6,860 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 237/21 धारा 13 जुआं अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 300 लीटर अवैध शराब,
05 शराब भट्टी बरामद कर 17 अभियुक्त गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 300 लीटर अवैध कच्ची शराब, 05 अवैध शराब भट्टी व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 17 अभियोग पंजीकृत किए गए। आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी एवं बरामदगी निरन्तर प्रचलित रहेगी।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त सतीश चंद्र पुत्र
रामप्रकाश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.06.2021 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं 290/21 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त सतीश चन्द्र पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम खखरा थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया।

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर अभियुक्त हामिद पुत्र रउफ को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.06.2021 को कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर अभियुक्त हामिद उर्फ हमीद पुत्र रउफ निवासी उमरिया कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में कोतवाली सदर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

हामिद उर्फ हमीद पुत्र रउफ निवासी उमरिया कोतवाली सदर जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 190 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद कर अभियुक्त राजेश पुत्र बालकराम को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.06.2021 को थाना मितौली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त राजेश पुत्र बालकराम निवासी धोलापुरवा थाना मितौली जनपद खीरी को 190 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना मितौली पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राजेश पुत्र बालकराम निवासी धोलापुरवा थाना मितौली जनपद खीरी

बरामदगी:-

190 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1. थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 280/21 धारा 376/342/363/366/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सूरज कश्यप पुत्र निरंजनलाल नि0 छेदुईपतिया थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **300 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **05 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 17 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

| क्र0 सं0 | थाना | बरामदगी | गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या |
|----------|-------------------|----------|-------------------------------|
| 1. | थाना मितौली | 95 लीटर | 02 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 2. | थाना खीरी | 45 लीटर | 08 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 3. | थाना धौरहरा | 40 लीटर | 02 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 4. | थाना गोला | 40 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 5. | थाना सम्पूर्णानगर | 20 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 6. | थाना हैदराबाद | 20 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 7. | थाना फूलबेहड | 20 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| 8. | थाना ईसानगर | 20 लीटर | 01 अभियुक्त गिरफ्तार |
| | कुल योग | 300 लीटर | 17 अभियुक्त गिरफ्तार |